

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अक्टूबर, 2021 माह के लिए मासिक उपलब्धियां

पत्तन क्षेत्र

1. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में अक्टूबर, 2020 में 5.73 मिलियन टन की तुलना में अक्टूबर, 2021 के माह के दौरान कुल 6.25 मिलियन टन कुल यातायात की संभलाई की गई जोकि पिछले वर्ष के इस माह से 9.18% अधिक है।
2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने 5वीं इंडियन मैरीटाइम समिट में "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पत्तन (कंटेनरीकृत)" का पुरस्कार जीता।

अंतर्देशीय जल परिवहन

1. माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को अध्यक्ष (प्रभारी), आईडब्ल्यूआई के साथ हल्दिया एमएमटी टर्मिनल का दौरा किया। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2021 को बोगीबील, डिब्रूगढ़ का दौरा भी किया और बोगीबील में पर्यटक और कार्गो टर्मिनल सुविधाओं के रीवरफ्रंट विकास हेतु आईडब्ल्यूआई, नार्थ फ्रंटियर रेलवे और असम सरकार के साथ बैठक की।
2. राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात इस वर्ष उत्साहवर्धक रहा। अप्रैल से सितंबर, 2021 के दौरान 46.34 मिलियन टन की उपलब्धि हासिल की गई है जोकि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 30.07 मिलियन टन थी और इस प्रकार 54.15% की वृद्धि दर्ज की गई है।
3. 6958.48 मिलियन टन कुल भार के क्रशड स्टोन चिप्स से लदे 33 बांग्लादेशी जलयानों ने अक्टूबर, 2021 के दौरान धुबरी (रा.ज.-2) से चिलमारी (बांग्लादेश) तक की यात्रा की।
4. 582.00 मिलियन टन कुल भार के लाइमस्टोन और क्रशड स्टोन चिप्स से लदे 04 बांग्लादेशी जलयानों ने अक्टूबर, 2021 के दौरान बदरपुर (रा.ज.-16) से नारायणगंज (बांग्लादेश) तक की यात्रा की।
5. बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पॉवर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड हेतु केमिकल प्रोसेस पाइपिंग प्राइवेट लिमिटेड के 90.308 एमटी के ओडीसी (जीआरपी चिमनी) को कोलकाता से मोंगला तक जलमार्ग के माध्यम से ले जाया जा रहा है।
6. अक्टूबर, 2021 माह के दौरान अंतर्देशीय जल पारागमन एवं व्यापार मार्ग पर प्रोटोकॉल के माध्यम से 4,67,038 एमटी कार्गो का आवागमन हुआ।
7. अक्टूबर, 2021 माह के दौरान धुबरी टर्मिनल में 4040.895 एमटी राहत सामग्री/खाद्यान्न (चावल) की संभलाई की गई।

पोत परिवहन

1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को सीएसएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ शिपयार्ड की भावी परियोजनाओं के निष्पादन और सीएसएल की अवसंरचनात्मक और विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए बैठक की।

2. दिनांक 3 अक्टूबर, 2021 को एससीआई के हीरक जयंती समारोह का समापन समारोह समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मुख्य अतिथि तथा माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

3. दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने अलापुझा सांसद की उपस्थिति में केरल के अलापुझा जिले में वलियझीक्कल में एक नये दीपस्तंभ का उद्घाटन किया। केरल के इस क्षेत्र में चलने वाले नाविकों और स्थानीय मछुवारों को इस दीपस्तंभ के निर्माण से काफी लाभ मिलेगा और दिन के समय 'डे मार्क' के रूप में और रात के समय सुरक्षित वापसी में मददगार होगा। तटीय विनियामक क्षेत्र (सीआरजेड) और अन्य वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के बाद, एलिवेटर और सहायक भवनों के साथ 41.26 मीटर ऊंचे पंचभुजीय आकार के आरसीसी टावर का निर्माण किया गया है और यह दीपस्तंभ दिनांक 3.6.2021 से अभी परीक्षण आधार पर चल रहा है।

02 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक विशेष अभियान

इस अभियान के दौरान माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान पर बैठकें की और स्वच्छ भारत अभियान जैसे विषयों पर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित दिशानिर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों के निपटान के लिए सप्ताह में दो बार विशेष अभियान भी चलाया गया। इस मंत्रालय के प्रमुख सचिवालय द्वारा 5179 फाइलों को नष्ट किया गया, स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया, 561 वर्ग फीट फर्श क्षेत्र को मुक्त किया गया तथा इस मंत्रालय के संगठनों द्वारा इस अभियान के दौरान 160700 फाइलों को नष्ट किया गया तथा 8294 पुराने उपकरणों/फर्नीचर का निस्तारण किया गया।